



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 21 राँची, बुधवार 23 पौष, 1937 (श०)

13 जनवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

अधिसूचना

8 जनवरी, 2016

संख्या-8/न0वि0/निकाय/114/2015-135 (अनु०)--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल साहेबगंज जिलान्तर्गत बरहरवा रेलवे (जक्शन) शहर को तथा उसके सटे 9 राजस्व ग्रामों की कुल जनसंख्या-24133 होने के फलस्वरूप परिवर्तनीय (संक्रमणशील) शहरी क्षेत्र (बरहरवा नगर पंचायत) के रूप में घोषित करने संबंधी प्रारूप आदेश निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर बरहरवा नगर पंचायत के गठन के प्रस्ताव/ प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, साहेबगंज के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, साहेबगंज के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ साहेबगंज जिलान्तर्गत बरहरवा रेलवे स्टेशन के आसपास के 9 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित संलग्न) को मिलाकर परिवर्तनीय (संक्रमणशील) शहरी क्षेत्र (बरहरवा नगर पंचायत) के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से ।

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव ।

अनुलग्नक-I

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

बरहरवा नगर पंचायत का गठन

उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-1803/गो., दि.-28.09.2015 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में साहेबगंज जिलान्तर्गत प्रस्तावित बरहरवा नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले 9 राजस्व ग्रामों की सूची निम्नवत है:-

क्र0	पंचायत	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)
1	2	3	4	5
1	बरहरवा पूर्वी	बरहरवा अंश	29	5503
		चंडीपुर	18	688
2	बरहरवा पश्चिमी	बरहरवा अंश	29	5409
3	झिकटिया	झिकटिया	26	4059
		झिकटिया	28	467
4	रतनपुर	रतनपुर	27	3414
		बरहरवा अंश	29	1705
		छोटागडग्राम उर्फ लबदा	38	826
5	पतना	पतना	39	2062
		कुल		24133

प्रस्तावित बरहरवा नगर पंचायत की चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

1	उत्तर	जगनाथपुर/कुसमी लखीपुर ग्राम
2	दक्षिण	बड़ागड ग्राम/ढुलूमपुर
3	पूरब	गोपालपुर/चांदपुर
4	पश्चिम	पतना प्रखण्ड

बरहरवा नगर पंचायत एक झलक में:-

1. बरहरवा नगर पंचायत की कुल जनसंख्या-24133
2. प्रस्तावित नगर पंचायत का क्षेत्रफल-406.26 हेक्टेयर (1003.47) एकड़।
